



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 267) पटना, शुक्रवार, 16 अप्रील 2010

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

5 मार्च 2010

सं0 बि०व०से०—(आ०)—04/09-607/प०व०,—श्री संजय कुमार, बि०व०से० वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी, वन प्रमंडल, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) के विरुद्ध अनुशासनहीनता, कर्तव्यों में लापरवाही, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति, वृक्षों के अवैधपातन एवं अवैध रूप से चल रहे आरा मिलों के संचालन में संलिप्तता आदि प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित आरोपों के कारण अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें निलंबन भत्ता देय होगा।

3. निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

देव नन्दन यादव,

सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 267-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>